

श्वेत फॉस्फोरस युद्ध सामग्री

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

हाल ही में वैश्विक मानवाधिकार संगठनों- [एमनेस्टी इंटरनेशनल](#) और [ह्यूमन राइट्स वॉच](#) ने इज़रायल रक्षा बलों (Israel Defense Forces- IDF) पर [अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून \(IHL\)](#) का उल्लंघन करते हुए गाज़ा और लेबनान में [श्वेत फॉस्फोरस हथियारों](#) का उपयोग करने का आरोप लगाया है।

श्वेत फॉस्फोरस:

- **परचिय:**
 - [श्वेत फॉस्फोरस](#) एक पायरोफोरिक अर्थात् स्वतः ज्वलनशील है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर प्रज्वलति होता है, जिससे गाढ़ा, हल्का धुआँ और साथ ही **815 डगिरी सेलसियस की तीव्र उष्मा** उत्पन्न होती है।
 - **पायरोफोरिक पदार्थ** वे होते हैं जो वायु के संपर्क में आने पर स्वतः बहुत तेज़ी से (5 मिनट से कम समय में) प्रज्वलति हो जाते हैं।
- **वैश्विक स्थिति:**
 - **रसायनों के वर्गीकरण और लेबलिंग के विश्व स्तर पर सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण** के तहत **श्वेत फॉस्फोरस** को **पायरोफोरिक टोस (श्रेणी 1)**, जिसमें ऐसे रसायन शामिल हैं जो वायु के संपर्क में आने पर "सहज" प्रज्वलति हो उठते हैं) के रूप में **वर्गीकृत** किया गया है, जो रासायनिक खतरों के वर्गीकरण और संचार को मानकीकृत करने के लिये विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त दृष्टिकोण है।
- **सैन्य उपयोग:**
 - श्वेत फॉस्फोरस तोप के गोले, बम और रॉकेट में प्रयुक्त होता है। इस रसायन में भगिगेए गए फेल्ट (कपड़ा) वेजेज़ के माध्यम से भी इसका प्रयोग किया जा सकता है।
 - इसका प्राथमिक सैन्य उपयोग एक **समोकसकरीन** के रूप में होता है, जिसका उपयोग थल सेना द्वारा दुश्मन से अपनी गतिविधियों को छपाने के लिये किया जाता है। धुआँ दृश्य असपष्टता का कार्य करता है। **श्वेत फॉस्फोरस इन्फ्रारेड ऑप्टिक्स** और आयुध ट्रैकिंग प्रणाली को भी **नुकसान पहुँचा सकता है**।
 - श्वेत फॉस्फोरस का उपयोग **आग लगाने वाले हथियार** के रूप में भी किया जा सकता है। अमेरिकी सेना ने वर्ष **2004 में इराक में फालुजा की दूसरी लड़ाई के दौरान** छपि हुए लड़ाकों को अपना स्थान छोड़ने के लिये मज़बूर करने हेतु श्वेत फॉस्फोरस हथियारों का इस्तेमाल किया था।
- **घातकता:**
 - यह बेहद ज्वलनशील होने के कारण हड्डियों तक को जला सकता है, इससे लोगों में श्वसन संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं तथा आधारभूत अवसंरचना व फसलों को नुकसान पहुँच सकता है, साथ ही वायु के संपर्क में आने से उग्र अग्नि की वजह से पशुधन की मौत/हानि हो सकती है।

ग्लोबली हार्मोनाइज़्ड सिसि्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ केमिकल्स (GHS):

- 1970 और 1980 के दशक में कई गंभीर औद्योगिक दुर्घटनाओं के बाद GHS की रूपरेखा तैयार की गई जो हार्मोनाइज़्ड केमिकल लेबल (पकिटोग्राम) तथा सेफ्टी डेटा शीट की अपनी प्रणाली के माध्यम से शर्मिकों को रासायनिक खतरों/जोखमियों से बचाने में मुख्य भूमिका निभाता है।
- वर्ष 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के एजेंडा 21 के अध्याय 19 के अनुसरण में **संयुक्त राष्ट्र** ने वर्ष **2003 में GHS के पहले आधिकारिक संस्करण का समर्थन** किया।

फॉस्फोरस बम का इतिहास एवं वधिकि प्रास्थिति:

- **इतिहास:**
 - आयरिश राष्ट्रवादियों द्वारा **19वीं सदी के अंत में सर्वप्रथम श्वेत/हवाइंट फास्फोरस बम का इस्तेमाल** किया गया, जिसे "फेनियन फायर" के रूप में जाना जाने लगा (फेनियन शब्द आयरिश राष्ट्रवादियों को संदर्भित करता है)।

- तब से इन बमों का प्रयोग वशिव में कई संघर्षों में किया गया है, जिसमें लंबे समय तक चलने वाला [नागोर्नो-काराबाख संघर्ष](#) तथा नॉर्मंडी पर द्वितीय वशिव युद्ध के दौरान आक्रमण शामिल हैं।

■ वधिकि प्रासथति:

- श्वेत फॉस्फोरस बम का उपयोग **पूरण रूप से प्रतबिंधति (blanket ban) नहीं** है, हालाँकि इनका उपयोग IHL के तहत वनियमिति है।
- इसे रासायनकि हथियार नहीं माना जाता है क्योकि इनके प्रमुख घटकों में ऊषमा और धूमर शामिल हैं। परणामस्वरूप इसके अनुप्रयोग को **कतपिय पारंपरकि हथियारों (CCW) के अभसिमय** के प्रोटोकॉल III द्वारा नयितरति कया जाता है, जो आग लगाने वाले हथियारों को संबोधति करता है।
 - सर्वप्रथम, यह बड़ी आबादी वाले कषेत्रों में सतह से लॉन्च कयि जाने वाले तापदीप्त बमों के उपयोग पर रोक लगाता है। हालाँकि यह सतह से लॉन्च कयि गए सभी तापदीप्त बमों के उपयोग को सीमिति नहीं करता है।
 - दूसरा, बहुउद्देशीय हथियार जनिमें श्वेत फास्फोरस बम शामिल है को आमतौर पर "स्मोकगि" एजेंट के रूप में माना जाता है, इन्हें प्रोटोकॉल की तापदीप्त बमों की परभाषा से बाहर रखा जा सकता है क्योकि इसमें ऐसे बम शामिल हैं जो **मुख्य रूप से आग लगाने तथा लोगों को जलाने के लयि डिज़ाइन कयि गए** हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वरष के प्रश्न

प्रश्न: 'रासायनकि हथियार नषिध संगठन (OPCW)' के संदरभ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2016)

1. यह नाटो और डबल्यूएचओ के साथ कार्य करने के संबंध में यूरोपीय संघ का एक संगठन है।
2. यह नए हथियारों के उपयोग को रोकने हेतु रासायनकि उद्योगों की नगिरानी करता है।
3. यह रासायनकि हथियारों के खतरों के खलिाफ राज्यों (पार्टयियों) को सहायता और सुरक्षा प्रदान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न. हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 'ऑस्ट्रेलिया समूह' तथा 'वासेनार व्यवस्था' के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय नरियात नयितरण व्यवस्थाओं में भारत को सदस्य बनाए जाने का समर्थन करने का नरिणय लयिा है। इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच क्या अंतर है? (2011)

1. 'ऑस्ट्रेलिया समूह' एक अनौपचारकि व्यवस्था है जिसका लक्ष्य नरियातक देशों द्वारा रासायनकि तथा जैवकि हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखमि को न्यूनीकृत करना है, जबकि 'वासेनार व्यवस्था' OECD के अंतर्गत गठति औपचारकि समूह है जिसके समान लक्ष्य हैं।
2. 'ऑस्ट्रेलिया समूह' के सहभागी मुख्यतः एशियाई, अफ्रीकी और उत्तरी अमेरिका के देश हैं, जबकि 'वासेनार व्यवस्था' के सहभागी मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरिकी महाद्वीप के देश हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)